

राजभाषा विभाग की नवम्बर, 2021 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (1) आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में राजभाषा विभाग द्वारा पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन वाराणसी में दिनांक 13-14, नवम्बर, 2021 को सफलतापूर्वक किया गया। यह सम्मेलन केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति का साक्षी बना। देशभर से पधारे अनेक हिन्दी विद्वानों समेत लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 8 विशेष सत्र रखे गये थे जिसमें लब्ध प्रतिष्ठ हिन्दी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। ये सत्र मुख्यतया "स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत में संपर्क भाषा एवं जनभाषा के रूप में हिन्दी की भूमिका", "मीडिया में हिन्दी: प्रभाव एवं योगदान", "राजभाषा के रूप में विकासयात्रा और योगदान", "वैश्विक संदर्भ में हिन्दी – चुनौतियाँ और संभावनाएं", "भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा और संस्कृति के निर्माण में हिन्दी की भूमिका", "न्यायपालिका में हिन्दी – प्रयोग और संभावनाएं" इत्यादि विषयों से संबंधित थे।
- (2) अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा एक "स्मारिका" का विमोचन भी किया गया।
- (3) राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 27.11.2021 को कानपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें उत्तर-1 और उत्तर-2 क्षेत्रों के कुल 122 कार्यालयों को वर्ष 2018-19 व 2019- 20 के लिए शील्डें व प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
- (4) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो व इसके केन्द्रों द्वारा 06 त्वरित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 236 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।
- (5) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 1,454 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया गया।
- (6) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला में 23 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।
- (7) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 44 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
- (8) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से 34 ई-निरीक्षण, 45 ई –बैठकें तथा 50 अन्य बैठकें/वेबिनार किए गए।

- (9) विभाग द्वारा 42 शिकायतों का निपटान किया गया ।
- (10) राजभाषा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.11.2021 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया।
